

Dated: January 21, 2023

The Manager The Manager

BSE Limited National Stock Exchange of India Ltd

Corporate Relationship Department Listing Department

Phiroze Jeejeebhoy Towers Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1

G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400 051

Scrip Code: 540750 Symbol: IEX

<u>Subject: Submission of Newspaper Publication of Financial Results for the quarter ended December 31, 2022.</u>

Dear Sir/Madam,

Dalal Street Mumbai- 400001

This is to inform that the Company has published Financial Results in the newspaper, pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Please find enclosed copies of newspaper results published in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) on January 21, 2023.

The above information will also be made available on the website of the Company: www.iexindia.com

You are requested to take the above information on record.

Thanking You

Yours faithfully,

For Indian Energy Exchange Limited

Vineet Harlalka CFO, Company Secretary & Compliance Officer Membership No. ACS-16264

Encl: as above

in social media influencers

Non-compliance can lead to a jail term of up to 2 yrs and penalty of ₹50 lakh

he Centre on Friday issued guide-lines for social-media influencers, including celebrities and virtual ava-

including celebrities and virtual ava-tars, for disclosing the promotional content of the products or services they endorsed and their material connections with those. "Material connection" with a brand covers monetary benefits, hotel stay, awards, employment relationships, sweep-stakes entries, and media barters. This is in accordance with the

Consumer Protection Act, 2019, which pro

Consumer Protection Act, 2019, which pro-vides the framework for protecting con-sumers against unfair trade practices and misleading advertisements. The Ministry of Consumer Affairs, during a press conference, unveiled the guidelines, which align with those given by the Advertising Standards Council of India (ASCI). India (ASCI)

On non-compliance with the guide-On non-compliance with the guide-lines, endorsers may face penalties including a fine up to \$10 lakh, which can go up to \$50 lakh on recurring violations.

Influencers and celebrities can be debarred from endorsements on repeated infringements and may go to jail for six months, which can be extended to two years, ministry offi-

nded to two years, ministry offi

Individuals or groups with access to an audience and have the power to affect its audience and nave in power to aniect its purchasing decisions or opinions about a product, service, brand or experience should disclose their material connections that may affect the weight or credibility of the representation made by them, said Rohit Kumar Singh, secretary, Department of Consumer Affairs.

of Consumer Affairs.
The secretary told reporters the size of
the social-media influencer market in India
last year was \$1,275 crore and by 2025, it
was likely to be \$1,2800 crore.
There are more than 100,000 socialmedia influencers of substance, and this
calls for a check, he added.
The guidelines said the disclosures and

endorsements should be in the same lan guage. Also, in the case of limited space platforms like Twitter, hashtags with short terms like "ad", "sponsored", and "paid" are acceptable.



WHAT THE GUIDELINES SAY

■ Endorsers include celebrities, influencers and virtual influencers Material connections include monetary benefits, hotel stays, awards, employment relation-ships, sweepstakes entries, media barters, among others

■ Picture endorsement disclosures should be superimposed over the image

■Video endorsement disclosures to be on video and not just in description

The same language to be used for disclosures and endorsements

enough for viewers to notice them, whereas for video content, they should be placed in the video and not just in the description. It should be in both the audio and video formats

However, in livestreams, disclosures should be displayed continuously and

prominently.
Highlighting the guidelines, Nidhi
Khare, additional secretary, department
of consumer affairs, said disclosures
should be hard to miss and should
not be mixed with a group of hashtags
or links.

"The whole issue is of consumers' right "The whole issue is of consumers' right to know. Therefore, the responsibility of the endorsers or other advertisers is to honestly disclose the information that consumers must know before making any purchasing decisions," she said.

Influencers not disclosing their material connections with their products or services will be in accordance with the rules only if their heal used or expensioned.

rules only if they had used or experienced

them in the past.

"We hope it becomes a deterrent, but
if further non-compliance takes place,
then under the law, there are provisions.
People can approach the authorities and

seek legal action against (violators)," the

seek legal action against the secretary said.

The department is in talks with tech companies to deploy some mechanism or algorithms to identify recurring transgressions.

transgressions.

The Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPI) welcomed the government's move and said the provisions of disclosing material connection were an objective step to define the term "misleading", and maintain transparency.

NAPI consists of independent doctors.

doctors.

Misleading consumers on any grounds is an offence but when it is about food/drink, especially for children, it can be dangerous, said Arun Gupta, convener, NAPi.

High fat, sugar, salt (HFSS) and other additives are critical ingredients that are usually concealed by companies in advertisements, he said.

tisements, he said.

"As long as there is no health-warning as long as there is no neatur-warming law regarding such products, the authorities must take suo motu action against ads of HFSS food/drink, based on guidance from the World Health

Centre issues norms to rein | Google Play Store policies: CCI files caveat before SC

The Competition Commission of India (CCI) on Friday filed a caveat before Supreme Court to avert any relief to Google without informing the regulator, acting a day after the top court refused to grant an interim stay to the technology giant in a case related to Android devices.

The CCI's caveat relates to its separate order that on October 25 imposed a fine of \$936.44 crore on Google for abusing its dominant position through its Play Store policies.

through its Play Store policies.
Google had moved the
National Company Law
Appellate Tribunal (NCLAT)

against this order.
A caveat asks a court that certain actions should not be taken without informing the

person (in this case CCI) who

person (in this case CCI) who gave the notice.

The NCLAT, on January II, refused to stay the CCI order and asked Google to "cease and desist" from abusive Play Store practices.

Atwo-member NCLAT Bench said Google's

NCLAT Bench said Google's appeal against the CCI order is subject to the tech giant depositing 10 per cent of the penalty imposed by the competition resultator. tion regulator. "Penalty to be

deposited with the Registrar in

Google parent Alphabet's lawyer Harish Salve had argued before the NCLAT that CCI's order cites various examples of abuse by the tech giant without out discussing their adverse effect on compe-

effect on compe-

effect on competition.

"This goes against the Competition Act and case laws," he said.

If Google complies with the CCI order it

would have to ore policies would have to make deep changes in its policies (Play Store and third parties) and it may suffer a loss of revenue, Salve added.

Advocates Samar Bansal

with Manu Chaturvedi, who argued for CCI, said that Google has admitted that it is implementing similar direc-tions as contained in the reg-ulator's order in other juris-dictions such as Europe. "However, in India, Google/Alphabet has chosen

to appeal and press for a stay of such directions which show discriminatory conduct of Google between India and other jurisdictions," they

said.
Play Store requires all app developers on the platform to only use Google Play's Billing System (GPBS) to charge their customers. GPBS is also man-

datory for in-app purchases. After Google started charging a 30 percent commission in 2020 for Play Store transac-tions, some App developers complained to the CCI.

OIEX INDIAN ENERGY EXCHANGE	_
INNOVATION TECHNOLOGY FUTURE	

INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2022

Amount in ₹ Lak 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 Total Income from Operations

Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)

Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)

Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for 34,451 27,851 Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax) Equily Stanc Coality (and Coding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheed of the previous year Earnings Per Sharer (of ₹1/- each) - Basic:

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च | तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥27॥

jātasya hi dhruvo mrityur dhruvam janma mritasya cha tasmād aparihārye 'rthe na tvam shochitum arhasi



(10.11.1937 - 20.01.2023)



Forever in our hearts

With profound grief we inform you of the sad demise of

Dr. Rajendra Kumar Somany

He was a leader, founder, a true visionary and will be remembered as a caring father.

> Final Journey: Lodhi Crematorium Ground January 21, 2023, 12:15 PM

> > In Loving Memory:

Surendra Kumar Somany - Brother Sandip and Sumita Somany - Son and Daughter-in-law Sandhya and Arvind Agrawal - Daughter and Son-in-law Divya Somany - Daughter

Grandchildren - Shashvat Somany | Udish Agrawal and the Somany Family.





hındware

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक!

punjab national bank

..the name you can BANK up

चल/अचल संपत्ति के लिए भौतिक कब्जे की सूचना

ऋण नार का गम्मालाखत पांगत सारा एवं उस पर ब्याज व जन्य खब के जावान	6th)		
उधारकर्ताओं/गारंटर/निदेशकों/शाखा के नाम व पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि एवं बकाया धनराशि	कब्जे की तिथि कब्जे का प्रकार
शासा— पंजाब नेशनात्र बैठ, सिविल लाइन, एडकी। 1— की उत्तरां तक केंद्रीट प्रारं किए स्थापनात्री। विक. कार्यावरा— एव-एवर्स, रिसास धर्क, हाराल, उत्तम नगर, नई दिल्ली -10075. निदेशको द्वारा— (()) श्री संध्यम मितन सुकी स्तृति तिरात। ((1)) सी संध्यम मितन सुकी अरवित हुम्मण निरात 2— की उत्तरां मितन सुकी अरवित हुम्मण निरात विकार केंद्रीट प्रारं स्थापनात्री केंद्री साता नंबर के केंद्रिट प्रारं स्थापनात्री केंद्री साता नंबर के क्षारं तम स्वत केंद्री स्थापनात्री केंद्री साता नंबर के क्षारं तम स्वत केंद्री स्थापनात्री केंद्री साता नंबर केंद्रीट प्रसादकारों केंद्री साता स्थापनात्र केंद्रीट स्थापनात्री केंद्रीय साता साता साता साता साता साता साता सात	बियान- ६० फीट, सुख बोज्यस्त 1170 वर्ग फीट गानी 108,736 वर्ग नीए हैं हैं । पूर्व में - 15 फीट जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं - पूर्व में - 15 फीट वीड़ा सदत्ता भिरेशम में - हाइडल की समीत उत्तर और दक्षिण में - हाइडल की संपित्ती । क्यानील स्थलर 10, 458 का हिस्सा है जो ग्राम समर्थे एक उककी (भार भिग्म, रुड़की की वर्तमान सीत्र में स्थलर हैं, जिसकी बही नंबर 1, जिद न्य जी हादिहार में स्थलर है, जिसकी बही नंबर 1, जिद न्य जी 272 हैं, जी पूछ 97-120 पर कम स्था 223 दिनांक 1405.2018 को सम्बत्ति सब-पिलप्ट्रार रुड़की गंधाविक हैं।	26.04.2021 4.9.4.1986.20/— (कारी एक करीड कीरानदे लाख इक्यासी हजार ने सी किया कार्य एवं बीस पैसे गात्र) दिनांक 01.04.2021 अधिरित्ता आज च का्य कान्यु तार्क कि पूर्ण सुगरान नहीं हो जाता।	
दिनांक 20.01.2023	स्थान : हरिद्वार	प्राधि	विकृत अधिकार्र



INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED

	Amount in < Lakn						
		Consolidated			Standalone		
SI No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended	Quarter	Ended	Nine Months Ended
NO.		31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	11,735	13,078	34,451	11,735	12,668	34,451
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	10,080	10,714	28,623	9,477	10,600	27,851
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	10,080	10,714	28,623	9,477	10,600	27,851
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	7,722	8,073	21,755	7,118	7,991	20,983
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,726	8,059	21,760	7,122	7,977	20,988
6	Equity Share Capital	8,978	8,977	8,978	8,978	8,977	8,978
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	61,363	49,626	61,363	61,219	50,155	61,219
8	Earnings Per Share* (of ₹1/- each)						
	- Basic:	0.86	0.90	2.43	0.79	0.89	2.34
	- Dijuted:	0.86	0.90	2.43	0.79	0.89	2.34
_	third convolined for avarage results						

st.
The above is an extract of the detailed format of Standabra and Consolidated Unaudited Financials Results for the Quarter ended 31 December 2022. fled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Results are available on the websites of the BSE Limited and the Section of the Contrarge of India Life (i.e., www.helmda.com, and www.helmda.com, and on the website of the Company (i.e., www.helmda.com, and www.helmda.com, and www.helmda.com, and www.helmda.com, and which provided the Section of the Company (i.e., www.helmda.com, and www.helmda.com, and www.helmda.com, and www.helmda.com, and the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the Company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company) (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., www.helmda.com, and in the section of the company (i.e., w

Place: Noida Date: 20 Janaury 2023



Growing with trust

DCM SHRIRAM LTD.

Regd. Office: 2rd Floor, (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi - 110 037 CIN: L74899DL1989PLC034923 E-mail: response@dcmshriram.com Website: www.dcmshriram.com Tel: 91 11 42100200 Fax: 91 11 43561694

Extract of Unaudited Consolidated financial results for the quarter and

nine months ended December 31, 2022

				Rs. in Crores	
PARTICULARS	Quarte	r Ended	Nine Months Ended		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	
Total Income	3,417.06	2,815.95	9,324.75	7,039.67	
Net Profit before tax	509.26	536.01	1,123.90	980.31	
Net Profit after tax [after share of profit/(loss) of joint	342.09	349.79	724.17	666.16	
venture]					
Total Comprehensive Income	357.84	346.36	732.16	657.33	
[Comprising net profit and Other Comprehensive Income					
(after tax)]					
Equity Share capital	31.35	31.35	31.35	31.35	
Farning per share - Basic/Diluted (Rs. per equity share)	21.94	22.43	46.44	42.72	

- Notes: . The Board of Directors has declared second interim dividend of Rs. 5.80 /- per equity share of Rs. 2/- each, aggregating to Rs. 90.45 crores, thereby making the total interim dividend of Rs. 10.40/- per equity share
- aggregating to Rs. 162.18 crores for the year.

 2. The extract of standalone results is as under:

ns. III Gibie					
PARTICULARS (Standalone)	Quarte	r Ended	Nine Months Ended		
FAITHCOLAITS (Stallualolle)	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	
Total income	3,351.29	2,764.46	9,185.30	6,917.89	
Profit before tax	496.92	532.05	1,160.80	961.70	
Profit after tax	335.42	346.56	770.15	651.32	
Total Comprehensive Income	347.38	342.99	778.94	643.15	
[Comprising net profit and Other Comprehensive Income					
(after tax)]	1				

- 3. Other Equity (excluding revaluation reserve) as at March 31, 2022 was Rs. 5,470.45 crores
- 4. The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listings and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full standalone and consolidated financial results in prescribed format are available on the Stock Exchanges websites (www.nseindia.com) / (www.bseindia.com) and Company's website www.dcmshriram.com
- . The above results were reviewed by Audit Committee and then approved by the Board of Directors in their meetings held on January 20, 2023. The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the aforesaid results.

For and on behalf of the Board of Directors VIKRAM S. SHRIRAM Vice Chairman & Managing Director DIN: 00027187

Place: New Delhi Date : January 20, 2023

Fenesta







PUBLIC NOTICE

Ajay Kumar R/o Plot No 7 Near Iain Bartan Bhandar Dharampura Najafgarh have changed my minor daughter's name from Bhavna D/o Mukesh to havna D/o Ajay Kumar fo

all purposes.

NAME CHANGE

I, Hitesh S/o Sh. Sanjay Kumar R/o A-66, Ram-dutt Enclave, Uttam Nagar, New Delhi-59 have changed my name to Hitesh Arora for all purposes.

वसली अधिकारी-

कर्णावस्य वस्तुनी अधिकारी-।

स्रण ससूत्वी द्रिस्युनल, देहसदून
भारत सरकार, वित्त मंत्रातय (वित्तीय सेवाए विमाग)
द्वितीय तल, पासर टींच, माजन मिरंजनपुर, सहस्वपुर गेव, देहरादून

मान सुना

केंक एवं सिरीय संस्थान अधिनियम, 1963 के अधीन क्षण की वसूती की धारा 25 से 28
एवं आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुस्यी के नियम 2 के तहत नोटिस।
आत.गी.(438) 2022
री. वाई संस्था 418 विनोच : 281/12/2022
री.वाई संस्था 418 विनोच : 281/12/2022
रो.वाई संस्था 418 विनोच : 281/12/2022
रो.वाई संस्था 418 विनोच : 281/12/2022
रो.वाई संस्था 418 विनोच : 281/12/2022

कर ऐवं ताताच रस्तान आधान्यन, 1953 के अहमी अपूर्वा के अपूर्वा है नियम 2 के तहन निरिद्धा आर प्री/183/022 की तहन निर्देध के अपूर्वा के अपूर्व के अपूर्वा के निर्देध 2 के तहन निरिद्धा आर प्री/183/022 की तहन निर्देध के अपूर्वा के अपूर्वा के अपूर्वा के अपूर्व के अपूर के अपूर्व के अपूर्व के अपूर के अपूर्य के अपूर के अपूर के अपूर्व

्रा) हत नामदर्भ क सम्बन्ध म फिर्के गर्थ सभी व्यव एवं गुरूक तथा बकाया बहुती की अधिक में अंध पार्व समस्य व्यव । (श्रु इन मोदिस के सम्बन्ध में किये गये सभी व्यव एवं शुरूक तथा बकाया वसूती की प्रक्रिका में आ पार्व समस्य व्यव । यह मोदिस 28/12/2022 के दिन भेरे हस्ताबर एवं इस दिव्युनन की मोहर के अंतर्गत जारी किय गया है।

वसूली अधिकारी-।। ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

प्र**तिभूत सम्पत्ति पता : बु**ळान नंबर एस 11, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 1, ईंडीएम कॉं कीशाम्बी, गाजियाबाद, क्षेत्रफल परिमाप 41.99 वर्ग मीटर। सम्पत्ति लता जैन के न

प्रतिमुख सम्प्रति पता: खेवत नंबर 93 मिन/95, खतीनी नंबर 143 मिन, खसरा नंबर 995, आर्थ नगर, बैंक कालोनी, बहादरगढ, हरियाणा, क्षेत्रफल परिमाप 110 वर्ग गज,

32501 & NHBAR00001295655

g सुनील/कोनल विवासी

00000731188 **पद्धा**ः सम्पत्तिः सं. ३७ का आधा अविभाजित हिस्सा, चेड नंबर 56, क्लास सी, प '—110026, सुभि परिमाप 129 वर्ग गज जो कुल सूमि परिमाप 258 वर्ग गज का मोहन लाल के नाम है।

्याचार कार न नाटर, रूपांत्र करना मावाच प्लान हुनार कुनार हुनार के नार है। जातर वह उन्हां के तमा है। जाती है ता अल्पन कारान मंत्र 2 में वर्षिक कार्याच्या राम्या-कार्यादा की स्वाची है ता अल्पन 3 में संबंधित कार्यादार राम्या-कार्यादा के सामने दाशीं नहें कुत पत्ति का मुस्ता स्व स्थान के कि हम के मीतर करने की मांग की जाती है, त्याची एका पत्ति कार्यादा है। यह रूप के माने की सामने हम कार्या कार्या की संबंध में देश पाई मुंदे ही यह रूप की मुस्तान की पिश्त कार्या मांग को और अल्प नार्या होना की पत्ति कार्या कार्य की पत्ति कार्या कार्य की की कार्या की सामने की सामने की कार्या की की कार्या की सामने की कार्या कर की हम कार्यों हम की कार्या की कार्या की सामने की सामने की कार्या के अधीन मिमारित अण्या विधित्यों से सूचना प्रदान करने हेतु भी कर करण कार्य के अधीन मिमारित अण्या विधित्यों से सूचना प्रदान करने हेतु भी कर

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन : U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट : www.arcil.co. Presidents: जि<mark>क्कृत कार्योक्तम :</mark> दि रूबी, 10यां तल, 29, सेनापति बायट मार्ग, दादर (परिय

: +#1 z266581300, : नंबर 1008, 11वीं तल, वेस्ट एंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंट फोन : 9289119262—67

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड

SBFC (पूर्ववर्ती एससीएफसी फाइनैंस प्राइवेट लिगिटेड)
पंजीकृत कार्यालयः युनिट सं. 103, पहली मंजिल, सीएँडबी स्ववायर, संगम कॉमप्लेक्स
याम खळाला ओरी-कलो रोड, आरेरी (ईंक्ट), मृन्यई-400059

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

प्रकार पुरानी (विशेषों वित्र प्रकार) वित्र (प्रकार) (प्र

कर्जदार का नाम एवं पता तथा	सम्पत्ति का विवरण एवं	कब्जा सूचना में मांग
मांग सूचना की तारीख	कब्जा की तारीख	की गई रकम (रु.)
1. मैसर्स मीना प्रोविजन जनरल स्टोर, 2. मीना वदोला,	मौजा हाथीबरकला, परगना संट्रल दुन, जिला देहरादुन में स्थित खसरा	रू. 65,03,345/- (रुपये
3. अमृता नंद बदोला एवं 4. चंद्र प्रकाश बदोला, सभी का पता		पैंसठ लाख तीन हजार
57, हाथी बरकला गाँव, देहरादून, उत्तराखंड-248001	देहरादून, .0565 हेक्टर परिमाप की सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण	तीन सौ पैंतालीस मात्र)
मांग सूचना की तारीखः 28 अक्टूबर, 2022	हिस्सा तथा चीहडी: पूर्वः ठाकुर श्री राजे सिंह की सम्पत्ति, पश्चिमः	25 अक्टूबर, 2022 की
ऋण नं.: 4021060000002316 (PR00606590),	सङ्क, उत्तरः सङ्क, दक्षिणः सङ्क।	स्थिति के अनुसार
13448 (PR00611787), MEPR00611787	कब्जा की तारीखः 20-जनवरी-2023	
(PR00851437) एवं ME4654688 (PR00866002)		
कर्जदार का ध्यान प्रत्यामूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उप	लब्ध समय के संबंध में अधिनियम की थारा 13 की उप-धारा (8) के प्राक	पानों की ओर आकर्षित किय

जाता है। स्थान : देवस्वदन तारीख: 21/01/2023 हस्ता/- (अधिकृत अधिकारी), एसबीएफसी फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड



होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

कब्जा सूचना

क. सं.	कर्जदारॉ / सह-कर्जदारॉ / जमानतियों के नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना की तारीखा को कुल बकाया राशि (रु. में)	कब्जे की तारीख
1.	सतपाल सिंह पुत्र हरपाल, ललिया सिंह	अपार्टमेंट नं. 101, टॉवर ए-7, अवालॉन रंगोली, सेक्टर-24, 75 मीटर और 45 मीटर चौड़े रोड का इंटरसेक्सन, धास्त्रहेड़ा-123108	10-11-2022	25,54,743	16-01-2023
2.	ओमपाल, ज्योति जय राम	पलैट-एसएफ-06, यूसरा तल, खसरा नं. 1303, प्लॉट नं. 29, पी एन विहार पीछे की साहुड आरएचएस, फ्रंट साहुड से तीसरा पलैट, पी एन विहार, एफ ब्लॉक, एसएलएफ विहार के सामने, हदवस्त गाँव लोनी, गाजियाबाद-201102	10-11-2022	8,62,386	17-01-2023
3.	सचिन कुमार गुप्ता, प्रीति	पलैट-जीएफ-03, प्लॉट नं. ए-8/18, बीएलएफ अंकुर विहार, शूरल (पीछे की साइब आरएचएस) गौव सादुल्लाबाद, लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102	10-11-2022	14,91,077	16-01-2023
4.	नो. शनीम अंसारी, रुकैया खातून	पतिट-03, प्रथम तल प्लॉट नं. बी 114, खसरा नं. 1308, हवात एन्कलेव, लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102	10-11-2022	11,75,144	16-01-2023
5.	जगदीश सिंह, ग्रीति सिंह	पलैट-401, ब्लॉक /बिरिकंग-ए, प्लॉट गं219, खलरा गं. 847, लोटल प्राइड अपार्टनेंट-3, ग्रीन पार्क कालोनी, विधियाना बुर्ज गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेख-201009	10-11-2022	12,96,471	16-01-2023
6.	मीरा, आशु	पलैट–10, खसरा नं. 324, उनंग एन्कलेव, अध्या खसरा नं. 324, तहसील दादरी, जिला गीतम बुद्ध नगर, उतार प्रदेश–201301	10-11-2022	9,21,706	16-01-2023
7.	ज्ञान रंजन प्रधान, रस्मिता प्रधान	प्लॉट नं. 162, मकान प्लॉट नं. 182 पर खसरा नं. 402, ओम साई एक्करेव, गाँव विभियाना बुजं, परगना और तहसील दावरी, गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009	10-11-2022	17,18,536	16-01-2023
8.	प्रमोद कुमार वर्मा, रूपा वर्मा	पसंट-जीएफ-104, स्तॉट नं. ए-3/9, बीएसएफ अंकूर विहार पीछे की साइड आरएकएस, गाँव और परगना लोनी, राहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102	10-11-2022	9,74,135	16-01-2023
9.	स्त. संजय ठाकुर (दिवंगत), अजय ठाकुर, स्त. संजय ठाकुर (दिवंगत) के अन्य विविक प्रतिनिवि	निरंजनी अख्यस्य मायापुर में मकान, खाता नं. 651, हरिद्वार परगना, ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार नगर निगम की सीमा नें, हरिद्वार-249401	10-11-2022	13,01,648	20-01-2023
10.	पूरन सिंह, वीपक सिंह, विनोद सिंह, लक्षिता सिंह	मकान-61, जोदला पॉवर हाऊस के पीछे, निकट हरमदा, सीकर रोड जगदीश पुरी एक्सटेशन, जोदला पॉवर हाऊस के पीछे, निकट हरमदा, सीकर रोड जवपुर राजस्थान-302013	10-11-2022	14,57,352	16-01-2023
11.	रोहितास सिंह, गीता कंवर	मकान-सी−2, प्लॉट नं. सी−2, कमला नगर, सिरसी रोड, मीनावाला, जयपुर, राजस्थान-302034	10-11-2022	6,58,519	16-01-2023
12.	राकेश कुमार, अनीता देवी, अभिषेक बाल्मिकी	मकान-खाता नं325, खसरा नं484 क वाका मीजा-बांदयान तहसील-गदरपुर, जिला- ऊवम सिंह नगर, उत्तराखंड, दिनेशपुर, उत्तराखंड-283183	10-11-2022	13,99,372	17-01-2023
13.	महेन्द्र सिंह, पूजा	मकान— खसरा नं4/4, खाता 0070, गाँव रामपुरा, तहसील काशीपुर, जिला— कथन सिंह नगर, काशीपुर-244713	10-11-2022	7,29,251	17-01-2023

र द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार/जमानती और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ाली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का उपरोक्त तारीख को कब्जा ले

विशेष रूप से कर्षवारें / जमानियों और सामान रूप में सर्व साबारण को संपत्तियों / प्रत्यानुत परिसंपतियों या इसके किसी माग से कोई लेग्देन न करने के लिए आगात किया जाता है और संपतियों / स्वयानुत परिसंपतियों का कोई भी क्लेन्टन संपतियों / प्रत्यानृत परिसंपतियों के लिए वहीं ऊपर उस्तिविक्त तथि जो पूर्ण पूरातान तरू आगे को व्याज सिंता गुर्मति है के लिए सेंग कर्षण काई स्वेचना किसके का मार के बती। दौरा। प्रत्यानृत परिसंपत्ति के पुरस्त कराने के लिए उपलब्ध सम्बन्धारी में अविनिधन की बाय-13 की उप-बाद (क) के प्रावचानों में कर्यदार का व्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी, होन फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड